



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 भाद्र 1934 (श0)
(सं0 पटना 497) पटना, बृहस्पतिवार, 20 सितम्बर 2012

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना
14 सितम्बर 2012

एस0 ओ0 169, दिनांक 20 सितम्बर 2012—दिनांक 04.07.2012 को बिहार राज्य मेला प्राधिकार की बैठक में सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बिहार राज्य मेला प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सोनपुर मेला, जिला-सारण के प्रबंधन को अगले-5 (पांच) वर्षों के लिए पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरण करने हेतु सरकार से अनुशंसा की जाए।

बिहार राज्य मेला प्राधिकार के उक्त अनुशंसा के आलोक में सोनपुर मेला के प्रबंधन को अगले 5 (पाँच) वर्षों यथा वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 तक पर्यटन विभाग, बिहार को निःशुल्क हस्तान्तरण करने के प्रस्ताव में सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

उक्त हस्तान्तरित अवधि के दौरान सोनपुर मेला प्रबंधन में होने वाले सम्पूर्ण व्यय भार का वहन पर्यटन विभाग, बिहार द्वारा किया जाएगा।

उक्त हस्तान्तरित अवधि के दौरान सोनपुर मेला सैरात की बंदोबस्ती स्थगित रहेगी।

2. उक्त हस्तान्तरण वित्तीय वर्ष 2012-13 में अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रवृत्त होगा।

[सं0 9/सै0-6-मेला बैठक-03/12-474(9)/रा0]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सी0 अशोकवर्धन,

प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 497-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>